

# बाढ़ संबंधी जांच-सूची

## बाढ़ की स्थिति में तैयारी करने में आपकी मदद करने के लिए जांच-सूची

### बाढ़ आने से पहले

- क्या आपने यह जांच कर ली है कि क्या आपका क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित होता है? अपनी स्थानीय काउंसिल से जांच करें
- क्या आपको रेत से भरी बोरियों (सेंडबैग) की ज़रूरत है? [ses.sa.gov.au](http://ses.sa.gov.au) वेबसाइट देखें
- क्या आपको पता है कि सुरक्षा के लिए कहाँ और कैसे जाना है?
- क्या आपने अपने परिवार के साथ बात करके एक एमर्जेंसी (आपातकालीन) योजना बना ली है? – [ses.sa.gov.au](http://ses.sa.gov.au) वेबसाइट से टेम्पलेट डाउनलोड करें
- क्या आपने एमर्जेंसी किट तैयार कर ली है? एमर्जेंसी किट चेकलिस्ट देखें
- क्या आपके पास एमर्जेंसी संपर्क नंबरों की सूची है जिसे आप फ्रिज़ पर लगा सकते हैं?
- क्या आपने यह जांच की है कि क्या आपकी बीमा योजना वर्तमान है और कि क्या यह बाढ़ की स्थिति में आपको बीमा से सुरक्षा देती है?

### यदि बाढ़ संबंधी चेतावनी जारी की जाती है तो क्या आपने:

- अपनी आपातकालीन योजना सक्रिय कर ली है?
- अपनी एमर्जेंसी किट खोज ली है?
- अपने ताज़ी ख़बर की जांच कर ली है? क्या उन्हें बाढ़ संबंधी चेतावनी के बारे में पता है?
- सूचना, अपडेट्स और सलाह के लिए स्थानीय मीडिया की जांच कर ली है?
- अपने शौचालय, नालियों और दरवाज़ों के आसपास तथा बाहरी सुराखों के आगे रेत से भरी बोरियाँ रख दी हैं?
- धरेलू वस्तुओं को पानी के प्रत्याशित स्तर से ऊपर रख दिया है?

### बाढ़ के दौरान

- सूचना, अपडेट्स और सलाह के लिए स्थानीय मीडिया की जांच करें
- अपने पड़ोसियों के साथ संपर्क में रहें
- एमर्जेंसी सेवाओं की सलाह का अनुपालन करें
- बच्चों को बाढ़ के पानी या इसके नज़दीक खेलने की अनुमति न दें।

### बाढ़ के बाद घर लौटना

- सूचना, अपडेट्स और सलाह के लिए स्थानीय मीडिया की जांच करें
- अंदर जाने से पहले इलेक्ट्रिसिटी और गैस बंद कर दें
- अपने घर और इमारत के अंदर और बाहर जांच करने के लिए टॉर्च का प्रयोग करें
- गैस या इलेक्ट्रिकल उपकरणों या सेवाओं का प्रयोग तब तक न करें जब तक कि इनकी जांच सुरक्षा के लिए न कर ली गई हो।

### कभी भी बाढ़ के पानी में गाड़ी या बाइक न चलाएँ या पैदल न चलें

nbn™ नेटवर्क से कनेक्ट उपकरण बिजली जाने की स्थिति में काम नहीं करेगा।

यह सुनिश्चित करें कि आपके पास बैटरी से चलने वाला रेडियो है और आपका मोबाइल फोन पूरी तरह चार्ज है।



जीवन को खतरे में डालने वाली  
आपातक स्थिति के लिए  
**ट्रिपल जीरो (000)**

आपातकालीन सहायता के लिए  
**132 500**

और अधिक जानकारी के लिए  
**1800 362 361**  
**[ses.sa.gov.au](http://ses.sa.gov.au)**